

KENDRIYA VIDYALAYA K AREA ZIRAKPUR

HOLIDAY HOMEWORK (AUTUMN BREAK) CLASS – IV



*KENDRIYA VIDYALAYA K-AREA,
ZIRAKPUR*

HOLIDAYS HOMEWORK

CLASS -IV

CHANDIGARH REGION



Subject- English

1. Write 10 sentences about how you spent your holidays.
2. Read 2 stories and write
 - i) name of the story
 - ii) 5 nouns from the story
 - iii) 5 pronouns from the story
 - iv) 5 describing words from the story
 - v) Moral of the story.
3. Watch , draw and write your favourite advertisement.
(Note : write the homework on coloured A4 sheets)

Subject- Hindi

1. पांच स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखों और उनके प्रसिद्ध नारे (slogan) लिखो।

2. "स्वतंत्रता की ओर" पाठ के सम्बन्ध में A4 पृष्ठ पर महात्मा गाँधी जी पर पांच वाक्य लिखें व उनकी कोई भी फोटो लगाएं।
3. अपने दादा/दादी/नाना/नानी से एक कहानी और एक कविता सुनकर लिखें व याद करें एवम उससे संबंधित चित्र भी बनाएं ।
4. आपने ये छुट्टियाँ किस तरह बिताई 50 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए।
5. सुंदर-सा एक खिलौना बनायेंगे जैसे कि कठपुतली, गुडिया, पक्षी, बत्तखें या पसंदीदा जानवर ।

Subject – Maths

1. Draw 4 rangoli designs on the A4 sheets using a circle.
2. Write and learn tables upto 20.
3. Paste origami sheets by folding it to show whole, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{8}$ parts.
4. Make a face mask of 4 animals which could be folded into equal halves.

(Note : Do the work on A4 coloured sheets.)

SUB-EVS

1. Food recipe - Make a nutritious healthy food item with help of your parent. Share and paste its photograph in the notebook and name the food dish.
 2. Observe and Identify fruits and vegetables :-
 1. Draw and colour fruits and vegetables which spoil quickly.
 2. Draw and colour fruits and vegetables which do not spoil quickly.
 3. Draw and colour vegetables which have smooth skin.
 4. Draw and colour fruits and vegetables which have rough skin.
- (Note-Do in your notebook)
3. Make a Bird Book/Animal book that you see around.
 4. Make a stuff toy of water animal / land animal/ Birds.

COMPUTER

1. Complete your Computer notebook.
2. Draw a drawing of Computer on A4 sheet.

Have a Safe and Happy Holidays

- शरदकालीन अवकाश के दौरान प्रतिदिन सुबह योग और व्यायाम करना है ताकि आप स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।